



सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 27—मार्च 5, 2010 (फाल्गुन 8, 1931)

No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 27—MARCH 5, 2010 (PHALGUNA 8, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

### [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के  
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public  
Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of  
the Government of India]

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 11 फरवरी 2010

सं. ओ.दो.-7893/2010-कार्मिक-I--सरकारी सेवा से त्याग-पत्र  
स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप, श्री सोमेश तिवारी, सहायक कमान्डेंट  
(आई.आर.एल.ए.-7893) ने दिनांक 21.12.2009 (अपराह्न) में अपने  
पद का कार्यभार त्याग दिया है। तदनुसार इन्हें इस बल की नफरी से इसी  
तिथि से अर्थात् दिनांक 21.12.2009 (अपराह्न) से निकाले जाते हैं।

टी. चन्द्रशेखरन

पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

पूरी होने पर दिनांक 30.11.2009 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से  
सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. के. सिंहल  
निदेशक

दिनांक 5 फरवरी 2010

सं. ए-17011/94(एन-27)/2008-प्रशासन-I--इस निदेशालय के  
श्री नवतेज सिंह भाटिया, अतिरिक्त सहायक निदेशक अपनी अधिवर्षिता की  
आयु पूरी होने पर दिनांक 31.10.2009 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से  
सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. के. सिंहल  
निदेशक

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार

नई दिल्ली-110003, दिनांक 4 फरवरी 2010

सं. ए-17011/95(एम-51)/2008-प्रशासन-I--इस निदेशालय के  
श्री मदन लाल, अतिरिक्त सहायक निदेशक अपनी अधिवर्षिता की आयु

दिनांक 12 फरवरी 2010

सं. ए-17011/06(ए-47)/2009-प्रशासन-I--इस निदेशालय के  
श्री अशोक कुमार गुप्ता, उप निदेशक अपनी अधिवर्षिता की आयु पूरी होने

पर दिनांक 31.01.2010 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. के. सिंहल  
निदेशक

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग  
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, (केन्द्रीय व्यय)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 9 फरवरी 2010

सं. प्रशा.-1/का.आ.सं.-361--महानिदेशक लेखापरीक्षा, (केन्द्रीय व्यय), नई दिल्ली, इस कार्यालय के निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों को लेखापरीक्षा अधिकारी कैडर में रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2, जिसमें रु. 5,400/- का ग्रेड वेतन मान्य है, में दिनांक 01.02.2010 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं :--

1. श्री वीर सिंह राठी
2. श्री विजय कुमार गुप्ता
3. श्रीमती विमला हरिदास

ह./- अपठनीय  
निदेशक (प्रशासन)

खान मंत्रालय  
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता-16, दिनांक 9 फरवरी 2010

सं. 391ए/ए-32013/1-भूवै.(कनिष्ठ)/2008/19ए--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर राष्ट्रपति जी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निम्नलिखित सहायक भूवैज्ञानिक श्रेणी-I को भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ) के पद पर पदोन्नति पर इसी विभाग में तथा रुपए 8,000-275-13,500/- (पूर्व संशोधित) के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर, नियमित आधार पर प्रत्येक के सामने यथा उल्लिखित तिथि से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री जॉय जोसेफ	12.06.2008 (अपराह्न)
2.	श्री डी. एन. फुलजेले (अनु. जा.)	12.06.2008 (अपराह्न)

ए. के. रायचौधुरी  
निदेशक (प्रशासन)  
कृते महानिदेशक

कोलकाता-16, दिनांक 10 फरवरी 2010

शुद्धि-पत्र

सं. 1086/एसपी/ए-19011(6-एस.डी.एम.)/2007/19ए--इस कार्यालय की अधिसूचना सं. 1002/डी-13610-1376डी./ए-19011/(6-एस.डी.एम.)/2007/19ए, दिनांक 06.02.2009 में आंशिक संशोधन करते हुए उल्लेख है कि ग्रेड वेतन रु. 6,600/- के साथ वेतन

बैंड-3 (रुपए 15,600--39,000/-) के बदले ग्रेड वेतन रुपये 6,600/- के साथ वेतन बैंड-3 (रुपये 15,600--39,100/-) के रूप में पढ़ा जाए।

अन्य विवरण एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

जी. के. गुप्ता  
प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-II  
कृते महानिदेशक

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुम्बई-400085, दिनांक 9 फरवरी 2010

सं. 93/अधि./स्था.-1A/1572--निम्नलिखित तालिका में कॉलम-2 पर दर्शाए गए अधिकारियों द्वारा नामों के सामने कॉलम-3 पर दर्शाए गए पद, कॉलम-4 पर दर्शाई गई तारीखों को, कॉलम-5 पर दर्शाई गई घटना के आधार पर अधिकारियों द्वारा धारित पदों का कार्यभार त्याग किया गया है :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यभार त्यागने का पद	पदत्याग करने की तारीख	घटना
1.	डॉ. (श्रीमती) केतकी बापट	वै. अ./ई	23.11.2009 (अप.)	तकनीकी त्यागपत्र
2.	श्रीमती इमली सेल्वन	वै. अ./ई	15.12.2009	मृत्यु
3.	डॉ. के. एम. कुलकर्णी	वै. अ./ई	01.01.2010 (पूर्वा.)	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
4.	श्री. महाविर प्रसाद गुप्ता	वै. अ./एच	31.01.2010 (अप.)	अधिर्वर्षिता
5.	श्री महेश चंदर	वै. अ./एच	31.01.2010 (अप.)	अधिर्वर्षिता
6.	श्री डी. एन. बर्वे	वै. अ./एफ	31.01.2010 (अप.)	अधिर्वर्षिता
7.	डॉ. एन. के. पोरवाल	वै. अ./जी	31.01.2010 (अप.)	अधिर्वर्षिता
8.	श्रीमती के. राधा	निजी सचिव	31.01.2010 (अप.)	अधिर्वर्षिता
9.	डॉ. (श्रीमती) चित्रा पी. बोंगीरवार	वै. अ./एच	31.01.2010 (अप.)	अधिर्वर्षिता
10.	डॉ. वी. एस. कांबले	वै. अ./जी	31.01.2010 (अप.)	अधिर्वर्षिता
11.	श्रीमती एल. आर. नायर	वरिष्ठ निजी सचिव	31.01.2010 (अप.)	अधिर्वर्षिता

एन. डी. शर्मा  
नियंत्रक

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई-400001, दिनांक 4 फरवरी 2010

सं. 20/15(1)/2008-सीसीएस/04--राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई के उप स्थापना अधिकारी (वेतन बैंड-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-) श्री देवदास रमेश [जो इस समय परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था, मुम्बई में मुख्य प्रशासन अधिकारी (वेतन बैंड-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 7,600/-) के रूप में विभागेतर सेवा पर प्रतिनियुक्ति में हैं], को दिनांक 23.10.2009 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक ठीक निचले नियम के तहत प्रोफार्मा पदोन्नति पर मुख्य प्रशासन अधिकारी (वेतन बैंड-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 7,600/-) के रूप में नियुक्त करते हैं।

सी. डी. चाक्को  
विशेष कार्य अधिकारी

दिनांक 5 फरवरी 2010

सं. 20/3(1)/2009-सीसीएस/05--राष्ट्रपति, इस विभाग के भाषा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई की सहायक कार्मिक अधिकारी (वेतन बैंड-2 रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/-) श्रीमती लता बालसुब्रमण्यम को दिनांक 01.01.2010 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक उसी केन्द्र में उप स्थापना अधिकारी (वेतन बैंड-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सी. डी. चावको  
विशेष कार्य अधिकारी

भारी पानी बोर्ड

मुम्बई-400094, दिनांक 9 फरवरी 2010

सं. भाषाबो/भर्ती/2(5)/2009/116--राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'सी' के पद पर रु. 15,600--39,100/- के वेतन बैंड + 5,400/- के ग्रेड वेतन पर कालम सं. 4 में प्रत्येक के सामने उल्लिखित भारी पानी संयंत्रों में दिनांक 01 सितम्बर, 2008 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	विषय	नियुक्ति का स्थान	सिफारिश की गई वेतनवृद्धियों की संख्या	आरंभिक वेतन
सर्वश्री					
1.	डेनवर लोपेझ	रसायन	भाषासं (मणुगुरु)	03	रु. 17,490/-
2.	सुशील कुमार	इलेक्ट्रॉनिकी	भाषासं (मणुगुरु)	03	रु. 17,490/-
3.	पिल्ली श्रीनिवासा राव	यांत्रिक	भाषासं (मणुगुरु)	02	रु. 16,860/-
4.	चन्द्रशेखर एम. दुर्गा	रसायन	भाषासं (कोय)	03	रु. 17,490/-
5.	अभिमन्यु सिंह ठाकर	इलेक्ट्रॉनिकी	भाषासं (कोय)	03	रु. 17,490/-
6.	सुशील कुमार	यांत्रिक	भाषासं (कोय)	03	रु. 17,490/-
7.	नितिन रावत	यंत्रीकरण	भाषासं (बड़ौदा)	03	रु. 17,490/-
8.	विजय चटर्जी	यांत्रिक	भाषासं (बड़ौदा)	02	रु. 16,860/-

के. वी. पिल्लै  
प्रशासनिक अधिकारी-III

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500062, दिनांक 9 फरवरी 2010

सं. नाईस/काप्रभ-I/04/06/128--दिनांक 02.01.2010 के अधिसूचना क्र। नाईस/काप्रभ-I/04/06/14 के क्रम में, श्री टी. वरहाल राजू, वरिष्ठ

लिपिक को रु. 4,800/- के ग्रेड पे सहित रु. 9,300--34,800/- के पे बैंड में सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 28.02.2010 या भावी आदेश होने तक जो भी पूर्वघटित हो, बढ़ाया जाता है।

ए. एस. लक्ष्मण राव  
प्रशासनिक अधिकारी

सं. नाईस/काप्रभ-I/04/06/131--दिनांक 02.01.2010 के अधिसूचना क्र. एनएफसी/काप्रभ-I/04/06/11 के क्रम में, श्री एम. के. सत्यनारायणा, वरिष्ठ लिपिक को रु. 9,300--34,800/- के पे बैंड में, रु. 4,800/- के ग्रेड पे सहित सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 28.02.2010 या भावी आदेश होने तक जो भी पूर्वघटित हो, बढ़ाया जाता है।

ए. एस. लक्ष्मण राव  
प्रशासनिक अधिकारी

सं. नाईस/काप्रभ-I/04/06/134--दिनांक 02.01.2010 के अधिसूचना क्र. एनएफसी/काप्रभ-I/04/06/17 के क्रम में, श्री आर. गोमा नायक, प्रवर श्रेणी लिपिक को रु. 4,800/- के ग्रेड पे सहित रु. 9,300--34,800/- के पे बैंड में, सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 09.03.2010 या भावी आदेश होने तक जो भी पूर्वघटित हो, बढ़ाया जाता है।

ए. एस. लक्ष्मण राव  
प्रशासनिक अधिकारी

सं. नाईस/काप्रभ-I/03/58/136--मुख्य कार्यपालक, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र श्रीमती देवी प्रताप, आशुलिपिक ग्रेड-I को रु. 4,200/- के ग्रेड वेतन सहित रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड में दिनांक 01.01.2010 (अपराह्न) से भावी आदेश होने तक अस्थायी हैसियत में स्थानापन्न निजी सचिव (असचिवालय) तक के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए. एस. लक्ष्मण राव  
प्रशासनिक अधिकारी

इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र

कल्पाकम-603102, दिनांक 29 जनवरी 2010

सं. इंगांपअके/ए-11013/2010-भर्ती--राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित अधिकारी को इस विभाग के इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कल्पाकम में अस्थायी क्षमता पर अगले आदेश तक वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'सी' के पद पर प्रारंभिक वेतन रु. 21,000/-

(रु. 15,600/- + 5,400/- ग्रेड वेतन) पर रु. 15,600--39,100/- के वेतनमान पर दिनांक 01 सितम्बर, 2009 पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं :--

प.प.सं./ अनुभाग	नाम	जन्म दिनांक	मूल वेतन	ग्रेड वेतन
10071/एनईजी	श्री अहीजीत रॉय	06.09.83	रु. 15,600/-	रु. 5,400/-

वी. दयालन  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

जल संसाधन मंत्रालय  
केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड

फरीदाबाद-121001, दिनांक 12 फरवरी 2010

सं. 3-1685/2010-वैज्ञा.स्था. 267--विभागीय प्रोन्नति समिति (समूह ख, 'राजपत्रित') की सिफारिश के आधार पर श्रीमती मानसी भट्टाचार्य, एस.टी.ए. (रसायन) को वेतन बैंड-2, रुपए 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन 4,800/- रुपए प्रति माह एवं सामान्य भत्तों के वेतनमान पर सहायक रसायन के पद पर अस्थाई आधार पर दिनांक 13.01.2010 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता में नियुक्त किया जाता है।

वह कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी के स्वेच्छा निर्णय पर आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।

मूल चंद वर्मा  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

सं. 3-1679/2009-वैज्ञा.स्था. 268--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश के आधार पर श्री क्षेत्र मोहन नायक को वेतन बैंड-2, रुपए 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन 4,800/- रुपए प्रति माह एवं सामान्य भत्तों के वेतनमान पर सहायक भूजल वैज्ञानिक के पद पर अस्थाई आधार पर दिनांक 05.10.2009 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, प. म. क्षेत्र, अहमदाबाद में नियुक्त किया जाता है।

वह कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी के स्वेच्छा निर्णय पर आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।

मूल चंद वर्मा  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 2009

सं. 22-ईई/बी(40)/2005-ई.सी.-II--श्री जे. एस. बंगा कार्यपालक अभियंता (वै.), सतर्कता एकक, के.लो.नि.वि., निर्माण भवन, नई दिल्ली दिनांक 31.12.2009 (अपराह्न) को अधिवर्षिता प्राप्त कर लेने के कारण सेवा से निवृत्त हो जाएंगे।

मनीष बैजल  
उप निदेशक (प्रशा.)

कम्पनी मामले मंत्रालय  
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स जे. एस. बी. एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 14 अक्टूबर 2009

सं. 560(3)/एमसीए/आरओसी-दिल्ली(सीजीओ)/एसईसी 560/2009/00113--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जे. एस. बी. एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

ई. तिरकी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स एलाईड इन्सुलेटर एण्ड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 अक्टूबर 2009

सं. 560(3)/एमसीए/आरओसी-दिल्ली(सीजीओ)/एसईसी 560/2009/00168--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एलाईड इन्सुलेटर एण्ड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. सी. सक्सेना  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स एस्मी हाउस कीपिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 अक्टूबर 2009

सं. 560(3)/एमसीए/आरओसी-दिल्ली(सीजीओ)/एसईसी 560/2009/00054--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एस्मी हाउस कीपिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. सी. सक्सेना  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स एन्कस एस्टेट एण्ड कोरिडोर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 अक्टूबर 2009

सं. 560(3)/एमसीए/आरओसी-दिल्ली(सीजीओ)/एसईसी 560/2009/00056--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एन्कस एस्टेट एण्ड कोरिडोर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. सी. सक्सेना  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स एल्स एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 22 अक्टूबर 2009

सं. 560(3)/एमसीए/आरओसी-दिल्ली(सीजीओ)/एसईसी 560/2009/00093--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एल्स एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. सी. सक्सेना  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स फोनिक बायोटेक लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 23 अक्टूबर 2009

सं. 560(3)/एमसीए/आरओसी-दिल्ली(सीजीओ)/एसईसी 560/2009/00251--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स फोनिक बायोटेक लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. सी. सक्सेना  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स ट्रेक प्रोपर्टीज़ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 23 अक्टूबर 2009

सं. 560(3)/एमसीए/आरओसी-दिल्ली(सीजीओ)/एसईसी 560/00250--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ट्रेक प्रोपर्टीज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. सी. सक्सेना  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स ए. वी. वी. बी. इंटरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
कानपुर, दिनांक 10 फरवरी 2010

सं. एल.सी./560(3)/031661/2218--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ए. वी. वी. बी. इंटरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. पी. शाह  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स सिविल शिपिंग एण्ड लॉजीस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
अहमदाबाद-380013, दिनांक 10 फरवरी 2010

सं. आर.ओ.सी./44503/एस.टी.ए./560/2009---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सिविल शिपिंग एण्ड लॉजीस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स एकलीगजी एग्जीम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 10 फरवरी 2010

सं. आर.ओ.सी./40790/एस.टी.ए./560/2009---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह

सूचना दी जाती है कि मैसर्स एकलीगजी एजीम प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स अशोक सेरेमिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 12 फरवरी 2010

सं. आर.ओ.सी./19184/एस.टी.ए./560/2009---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अशोक सेरेमिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स कैपिटल ट्री कन्सलटेंट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 16 फरवरी 2010

सं. आर.ओ.सी./47187/एस.टी.ए./560/2009---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कैपिटल ट्री कन्सलटेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

कटक, दिनांक 11 फरवरी 2010

सं. आर.ओ.सी./560(5)/6880--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	15-008964	मैसर्स फामिली कार्ड-ईन प्राईवेट लिमिटेड
2.	15-009087	मैसर्स प्लान्ड वैल्यू मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड

वी. मोहन्ती  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स मारीटैम फोन्डेशन (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
चेन्नै-600006, दिनांक 10 फरवरी 2010

सं. 560(3)/का.क.म./क.पं-चेन्नै/धारा 560/2010/00309--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मारीटैम फोन्डेशन (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु, अन्दमाण एवं निकोबार द्विपसंज

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स एबीएल टेक्नो मार्क प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
चेन्नै-600006, दिनांक 10 फरवरी 2010

सं. 560(3)/का.क.म./क.पं-चेन्नै/धारा 560/2010/00318--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एबीएल टेक्नो मार्क प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु, अन्दमाण एवं निकोबार द्विपसंज

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स अनन्त ड्रिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
चेन्नै-600006, दिनांक 10 फरवरी 2010

सं. 560(3)/का.क.म./क.पं-चेन्नै/धारा 560/2010/00312--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अनन्त ड्रिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम

इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु, अन्दमाण एवं निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स वूरुदी कंसट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
चेन्नै-600006, दिनांक 10 फरवरी 2010

सं. 560(3)/का.क.म./कं.पं-चेन्नै/धारा 560/2010/00315--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वूरुदी कंसट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु, अन्दमाण एवं निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स ए. एण्ड पी.सी. इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
चेन्नै-600006, दिनांक 10 फरवरी 2010

सं. 560(3)/का.क.म./कं.पं-चेन्नै/धारा 560/2010/00306--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ए. एण्ड पी.सी. इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु, अन्दमाण एवं निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स सेन्नाडु प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नै-600006, दिनांक 10 फरवरी 2010

सं. 560(3)/का.क.म./कं.पं-चेन्नै/धारा 560/2010/00295--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सेन्नाडु प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु, अन्दमाण एवं निकोबार द्विपपुंज

MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110003, the 11th February 2010

No. O-II-7893/2010-Pers (AC)—Consequent on acceptance of notice of resignation from service, Shri Somesh Tiwari, Assistant Commandant (Trainee Officer) (IRLA-7893) relinquished the charge of his post on 21st December 2009 (AN). Accordingly, he has been struck off the strength of the department with effect from the same date i.e. 21.12.2009 (AN).

T. CHANDRASEKHARAN  
DIG (Pers)

DIRECTORATE OF COORDINATION  
(POLICE WIRELESS)

New Delhi-3, the 4th February 2010

No. A-17011/95(M-51)/2008-Admn.I—Shri Madan Lal, Extra Assistant Director of this Directorate has retired from Government service on attaining the age of superannuation in the afternoon of 30.11.2009.

P. K. SINGHAL  
Director

The 5th February 2010

No. A-17011/94(N-27)/2008-Admn.I—Shri Navtej Singh Bhatia, Extra Assistant Director of this Directorate has retired from Government service on attaining the age of superannuation in the afternoon of 31.10.2009.

P. K. SINGHAL  
Director

The 12th February 2010

No. A-17011/06(A-47)/2009-Admn.I—Shri Ashok Kumar Gupta, Deputy Director of this Directorate has retired from Government service on attaining the age of superannuation in the afternoon of 31.01.2010.

P. K. SINGHAL  
Director

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT  
(CENTRAL EXPENDITURE)

New Delhi-110002, the 9th February 2010

No. Admn.I/O.O. No.-361—Director General of Audit (Central Expenditure), New Delhi hereby appoints the

following Assistant Audit Officers of this office to officiate as Audit Officer in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- carrying Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from 01.02.2010 (FN) until further orders:—

1. Sh. Bir Singh Rath
2. Sh. Vijay Kumar Gupta
3. Smt. Vimla Haridas

Sd/- ILLEGIBLE  
Director (Admn.)

MINISTRY OF MINES  
GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700016, the 15th December 2009

No. 1518B/A-19012/(1-RPS)/02-19A—Shri Kaushik Pramanik has been appointed by the Director General, Geological Survey of India as an Assistant Geologist Grade-I in the Geological Survey of India in the scale of pay of Rs. 9,300—34,800/- in PB-2 with Grade pay Rs. 4,800/- in an temporary capacity w.e.f. the forenoon of 21.10.2009 (FN) until further orders.

A. K. RAYCHOUDHURI  
Director (Admn.)  
for Director General

The 9th February 2010

No. 391A/A-32013/1-Geol.(Jr.)/2008/19A—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint the following Assistant Geologists Grade-I, Geological Survey of India on promotion to the post of Geologist (Jr.) in the same department and on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- (pre-revised) w.e.f. the date as mentioned against each on regular basis until further orders:—

Sl. No.	Name of the officer	Date of assumption of charge
1.	Shri Joe Joseph	12.06.2008 (AN)
2.	Shri D. N. Fulzele (SC)	12.06.2008 (AN)

A. K. RAYCHAUDHURI  
Director (Administration)  
for Director General

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-400085, the 9th February 2010

No. 93/Noti./Est.IA/1572—The Officers whose names are mentioned in column 2 of the table below, relinquished the charge of the post held by them, as indicated in column 3



with effect from the dates mentioned in column 4 consequent on the event mentioned in column 5 thereof:—

Sr. No.	Name of the officer	Relinquished the charge of the post of	Date of relinquishment	Event
1.	Dr. (Smt.) Ketaki Bapat	SO/E	23.11.2009 (AN)	Technical Resignation
2.	Smt. Emily Selvan	SO/E	15.12.2009	Death
3.	Dr. K. M. Kulkarni	SO/E	01.01.2010 (FN)	Voluntary Retirement
4.	Sh. Mahavir Prasad Gupta	SO/H	31.01.2010 (AN)	Superannuation
5.	Sh. Mahesh Chander	SO/H	31.01.2010 (AN)	Superannuation
6.	Sh. D. N. Barve	SO/F	31.01.2010 (AN)	Superannuation
7.	Dr. N. K. Porwal	SO/G	31.01.2010 (AN)	Superannuation
8.	Smt. K. Radha	P. S.	31.01.2010 (AN)	Superannuation
9.	Dr. (Smt.) Chitra Bongirwar	SO/H	31.01.2010 (AN)	Superannuation
10.	Dr. V. S. Kamble	SO/G	31.01.2010 (AN)	Superannuation
11.	Smt. L. R. Nair	Sr. P. S.	31.01.2010 (AN)	Superannuation

N. D. SHARMA  
Controller

## DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 4th February 2010

No. 20/15(1)/2008-CCS/04—The President is pleased to appoint Shri Devadoss Ramesh, Deputy Establishment Officer (PB-3, Rs. 15,600—38,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-) Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai [presently on deputation on foreign service to Atomic Energy Education Society, Mumbai as Chief Administrative Officer (PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 7,600/-)] as Chief Administrative Officer (PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 7,600/-) on proforma promotion under next below rule w.e.f. 23.10.2009 (FN) until further orders.

C. D. CHACKO  
Officer-on-Special Duty

The 5th February 2010

No. 20/3(1)/2009-CCS/05—The President is pleased to appoint Smt. Lata Balasubramaniam, Assistant Personnel Officer (PB-2, Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/-), Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai of this Department as Deputy Establishment Officer (PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-) in the same centre w.e.f. 01.01.2010 (FN) until further orders.

C. D. CHACKO  
Officer-on-Special Duty

## HEAVY WATER BOARD

Mumbai-400094, the 9th February 2010

No. HWB/R/2(5)/2009/116—The President is pleased to appoint the following persons as Scientific Officers/Engineers Grade 'C' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- in Heavy Water Plant mentioned against each at column No. 4 with effect from the forenoon of September 01, 2008 in a temporary capacity until further orders:—

Sl. No.	Name	Discipline	Place of Appointment	No. of increments recommended	Initial Pay
1	2	3	4	5	6
	S/Shri				
1.	Denver Lopez	Chemical	HWP (Manuguru)	03	Rs. 17,490/-
2.	Sushil Kumar	Electronics	HWP (Manuguru)	03	Rs. 17,490/-
3.	Pilli Srinivasa Rao	Mechanical	HWP (Manuguru)	02	Rs. 16,860/-
4.	Chandrashekhar M. Duddagi	Chemical	HWP (Kota)	03	Rs. 17,490/-
5.	Abhimanyu Singh Dhaker	Electronics	HWP (Kota)	03	Rs. 17,490/-
6.	Sushil Kumar	Mechanical	HWP (Kota)	03	Rs. 17,490/-

1	2	3	4	5	6
	S/Shri				
7.	Nitin Rawat	Instrumentation	HWP (Baroda)	03	Rs. 17,490/-
8.	Vijay Chatterjee	Mechanical	HWP (Baroda)	02	Rs. 16,860/-

K. V. PILLAI  
Administrative Officer

#### NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500062, the 9th February 2010

No. NFC/PAR-I/04/06/128—In continuation of Notification No. NFC/PAR-I/04/06/14 dated 02.01.2010 the adhoc appointment of Shri T. Varahala Raju, Senior Clerk as Assistant Personnel Officer on adhoc basis in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay Rs. 4,800/- has been extended upto 28.02.2010 or until further orders, whichever is earlier.

A. S. LAXMAN RAO  
Administrative Officer

No. NFC/PAR-I/04/06/131—In continuation of Notification No. NFC/PAR-I/04/06/11 dated 02.01.2010 the adhoc appointment of Shri M. K. Satyanarayana, Senior Clerk as Assistant Personnel Officer in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay Rs. 4,800/- has been extended upto 28.02.2010 or until further orders, whichever is earlier.

A. S. LAXMAN RAO  
Administrative Officer

No. NFC/PAR-I/04/06/134—In continuation of Notification No. NFC/PAR-I/04/06/17 dated 02.01.2010 the adhoc appointment of Shri R. Gema Naik, Upper Division Clerk as Assistant Personnel Officer in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay Rs. 4,800/- has been extended upto 9.03.2010 or until further orders, whichever is earlier.

A. S. LAXMAN RAO  
Administrative Officer

No. NFC/PAR-I/03/58/136—Chief Executive, NFC appoints Smt. Devi Pratap, Stenographer Grade-I to officiate as Private Secretary (NS) in temporary capacity in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- Plus Grade Pay of Rs. 4,200/- with effect from 01.01.2010 (FN) until further orders.

A. S. LAXMAN RAO  
Administrative Officer

#### INDIRA GANDHI CENTRE FOR ATOMIC RESEARCH

Kalpakkam-603102, the 29th January 2010

No. IGC/A-11013/2010-R—The President is pleased to appoint the undermentioned Officer in Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam of this Department as Scientific Officer/Engineer Grade 'C' on an initial pay of Rs. 21,000/- (Rs. 15,600/- + Rs. 5,400/- G.P.) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with effect from the forenoon of 1st September 2009 in a temporary capacity until further orders :—

IC. No./Section	Name	Date of Birth	Basic Pay	Grade Pay
10071/ENG	Sh. Ahjit Roy	06.09.83	Rs. 15,600/-	Rs. 5,400/-

V. DAYALAN  
Chief Administrative Officer

#### MINISTRY OF WATER RESOURCES CENTRAL GROUND WATER BOARD

NH-IV, Faridabad, the 12th February 2010

No. 3-1685/2010-Sci. Estt./894—On the recommendations of the Departmental Promotional Committee, Ms. Manashi Bhattacharyya, STA (Chemical) has been promoted to the post of Assistant Chemist (Group 'B', Gazetted) in the Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- per month plus usual allowances applicable thereon in the temporary capacity w.e.f. 13.01.2010 (FN) and posted at CGWB, ER, Kolkata.

She will be on probation for a period of two years from the the date of her joining which can be extended by the competent authority at his discretion.

MOOL CHAND VERMA  
Sr. Administrative Officer

No. 3-1679/2009-Sci. Estt./895—On the recommendations of the UPSC, Sh. Kshetra Mohan Nayak has been promoted to the post of Assistant Hydrogeologist (Group 'B', Gazetted) in the Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- per month plus usual allowances applicable thereon in the temporary capacity w.e.f. 05.10.2009 (FN) and posted at CGWB, WCR, Ahmedabad.

He will be on probation for a period of two years from the date of his joining which can be extended by the competent authority at his discretion.

MOOL CHAND VERMA  
Sr. Administrative Officer

## CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

New Delhi, the 31st December 2009

No. 27-EE/B(40)/2005-EC-II—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Shri J. S. Banga, Executive Engineer (Elect.), Vigilance Unit, CPWD Nirman Bhawan, New Delhi retires from Government Service with effect from 31.12.2009 (AN).

MANISH BAIJAL  
Dy. Director (Admn.)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS  
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. JSB Exports Private Limited

New Delhi-110019, the 14th October 2009

No. u/s. 560(3)MCA/RoC-Delhi(CGO)/sec 560/2009/00113—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. JSB Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

EGINIUS TIRKEY  
Dy. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Allied Insulators and Engineers Private Limited

New Delhi-110019, the 20th October 2009

No. u/s. 560(3)MCA/RoC-Delhi(CGO)/sec 560/2009/00168—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Allied Insulators and Engineers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

MAHESH CHANDRA SAXENA  
Asstt. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. ACME House-Keeping Private Limited

New Delhi-110019, the 20th October 2009

No. u/s. 560(3)MCA/RoC-Delhi(CGO)/sec 560/2009/00054—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. ACME House-Keeping Private Limited unless cause

is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

MAHESH CHANDRA SAXENA  
Asstt. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Annex Estates and Corridor Private Limited

New Delhi-110019, the 20th October 2009

No. u/s. 560(3)MCA/RoC-Delhi(CGO)/sec 560/2009/00056—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Annex Estates and Corridor Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

MAHESH CHANDRA SAXENA  
Asstt. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Alex Exports Private Limited

New Delhi-110019, the 22nd October 2009

No. u/s. 560(3)MCA/RoC-Delhi(CGO)/sec 560/2009/00093—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Alex Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

MAHESH CHANDRA SAXENA  
Asstt. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Phoenix Biotech Limited

New Delhi-110019, the 23rd October 2009

No. u/s. 560(3)MCA/RoC-Delhi(CGO)/sec 560/2009/00251—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Phoenix Biotech Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

MAHESH CHANDRA SAXENA  
Asstt. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Trak Properties Private Limited

New Delhi-110019, the 23rd October 2009

No. u/s. 560(3)MCA/RoC-Delhi(CGO)/sec 560/2009/000250—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Trak Properties Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

MAHESH CHANDRA SAXENA  
Asstt. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. AVVB Enterprises Private Limited

Kanpur-208001, the 10th February 2010

No. LC/560(3)/20-031661/2210—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. AVVB Enterprises Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

M. P. SHAH  
Registrar of Companies  
U.P. & Uttarakhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Seawheel Shipping and Logistics Private Limited

Ahmedabad-380013, the 10th February 2010

No. 39/20022—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Seawheel Shipping and Logistics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Eklingji Exim Private Limited

Ahmedabad-380013, the 10th February 2010

No. 36/20025—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Eklingji Exim Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ashok Ceramics Private Limited

Ahmedabad, the 12th February 2010

No. u/s. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00674/24080—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ashok Ceramics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Capital Tree Consultant Private Limited

Ahmedabad, the 16th February 2010

No. u/s. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2009//00264/20318—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Capital Tree Consultant Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following companies

Cuttack-753001, the 11th February 2010

No. ROC/Sec. 560(5)/6880—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off the register and the said companies are dissolved :—

S. No.	Com. No.	Com. Name
1.	15-008964	M/s. Family Card. in Private Limited
2.	15-009087	M/s. Planned Wealth Management Private Limited

B. MOHANTY  
Registrar of Companies  
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Maritime Foundation (India) Private Limited

Chennai-600034, the 9th February 2010

No. u/s. 560(3)MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00309—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Maritime Foundation (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY  
Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. ABL Techno Mak Private Limited

Chennai-600034, the 9th February 2010

No. u/s. 560(3)MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00318—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. ABL Techno Mak Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY  
Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Anand Drugs and Pharmaceuticals Private Limited

Chennai-600034, the 9th February 2010

No. u/s. 560(3)MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00312—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Anand Drugs and Pharmaceuticals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY  
Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vrudhi Construction Private Limited

Chennai-600034, the 9th February 2010

No. u/s. 560(3)MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00315—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vrudhi Construction Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY  
Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. INPC Engineering Private Limited

Chennai-600034, the 9th February 2010

No. u/s. 560(3)MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00306—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. INPC Engineering Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY  
Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sengadu Project Private Limited

Chennai-600034, the 9th February 2010

No. u/s. 560(3)MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/000250—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sengadu Project Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY  
Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands